

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2021

विषय- जनपद चमोली की तहसील गैरसैण में फायर यूनिट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्निशमन एवं आपात् सेवा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-डीजी-आठ-200/2018, दिनांक 28-09-2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली की तहसील गैरसैण में फायर यूनिट की स्थापना हेतु निम्न तालिकानुसार कुल-12 अस्थायी (02 आउटसोर्स) पदों को दिनांक 28-02-2021 तक बशर्ते कि इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जायें सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान/वेतन लेवल
1	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	01	44900-142400 लेवल-7
2	लीडिंग फायर मैन	01	25500-81100 लेवल-4
3	फायर सर्विस चालक	02	25500-81100 लेवल-4
4	फायर मैन	06	21700-69100 लेवल-3
5	अनुचर/स्वीपर	02	(आउटसोर्स)
	कुल योग-	12	

2- उक्त नियमित वेतनक्रम में सृजित पदों के सापेक्ष पद धारकों को (क्रमांक-5 को छोड़कर) समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हो, देय होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक 2055-पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन-04-अग्नि से संरक्षण एवं नियंत्रण के अधिष्ठान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-38/XXVII(7)/2021, दिनांक 10 फरवरी, 2021 पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भवदीय,

(नितेश कुमार झा)  
सचिव

संख्या- 108 /XX-4 /2020-02(15)/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्निशमन एवं आपात् सेवा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिला मजिस्ट्रेट, चमोली।
4. पुलिस अधीक्षक, चमोली।
5. वित्त अनुभाग-5/7
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(अखिलेश मिश्रा)  
उप सचिव।